

1822**B.Com. (First Year) Examination, 2017****BUSINESS ADMINISTRATION**

Paper – II

(Business Regulatory Framework)

*Time : Three Hours**Maximum Marks : 100*

PART-A

[Marks : 20]

(खण्ड-अ)

Answer all questions (50 words each).

All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक न हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART-B

[Marks : 50]

(खण्ड-ब)

Answer *five* questions (250 words each). Select *one* question from each unit. All questions carry equal marks.

प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न चुनते हुए, कुल पाँच प्रश्न कीजिए।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART-C

[Marks : 30]

(खण्ड-स)

Answer any *two* questions (300 words each).

All questions carry equal marks.

कोई दो प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से

अधिक न हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART-A

(खण्ड-अ)

UNIT-I

(इकाई-I)

1. (i) What do you mean by Void Contract ?
अवैध अनुबन्ध से आप क्या समझते हैं ?
- (ii) Explain any *two* capacities of Parties of Contract.
पक्षकारों के अनुबन्ध करने की कोई दो क्षमताएं बताएँ।

UNIT-II

(इकाई-II)

- (iii) Define Contract of Guarantee.
क्षतिपूर्ति अनुबन्ध को परिभाषित करें।
- (iv) How many parties are there in a Contract of Indemnity ?
हानिरक्षा के अनुबन्ध में कितने पक्षकार होते हैं ?

UNIT-III

(इकाई-III)

- (v) State any *three* objectives of Factories Act.
कारखाना अधिनियम के तीन उद्देश्यों को बताइये।

- (vi) What are the causes of Absense of Workers ?
श्रमिकों की अनुपस्थिति के क्या कारण हैं ?

UNIT-IV

(इकाई-IV)

- (vii) What is Information Technology Act ?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या है ?
- (viii) Define Adjudicating Officer.
न्याय निर्णायक अधिकारी को परिभाषित करें।

UNIT-V

(इकाई-V)

- (ix) Define Patent.
पेटेन्ट को परिभाषित करें।
- (x) Define Exclusive Licence.
अन्यन लाइसेन्स को परिभाषित कीजिए।

PART-B

(खण्ड-ब)

UNIT-I

(इकाई-I)

2. Difference between Coercion and Undue Influence.
उत्पीड़न एवं अनुचित प्रभाव में अन्तर बताएँ।

3. Can an Agreement be valid without Consideration ?

क्या प्रतिफल रहित ठहराव वैध हो सकता है ?

UNIT-II

(इकाई-II)

4. Explain the right and liabilities of Indemnity Holder.

हानिरक्षा के अधिकार तथा दायित्व बताएँ।

5. Difference between Sale and Bailment.

विक्रय तथा निक्षेप में अन्तर बताएँ।

UNIT-III

(इकाई-III)

6. What are the provision related to drinking water under Factories Act ?

कारखाना अधिनियम के पेयजल संबंधी प्रावधान क्या हैं ?

7. What are the provisions related to participation of workers in Safety Management ?

सुरक्षा प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी क्या प्रावधान हैं ?

UNIT-IV

(इकाई-IV)

8. What is meant by Appropriate government ?

उपयुक्त सरकार से क्या तात्पर्य है?

9. Write a detailed note on Attribution Acknowledgement and Dispatch of Electronic Records ?

इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों के विचार, अभिस्वीकृति और प्रेषण पर टिप्पणी लिखें।

UNIT-V

(इकाई-V)

10. What are the provisions related to Revocation of Patents ?

पेटेंटों को रद्द करने के संबंध में क्या प्रावधान हैं?

11. Define Copyright. State the nature, duration, subject nature of Copyright.

प्रतिलिप्याधिकार को परिभाषित करें। साथ ही इसकी प्रकृति, कालावधि और विषय वस्तु को समझाइये।

PART-C

(खण्ड-स)

UNIT-I

(इकाई-I)

12. What is mean by Free Consent ? When is consent not free ? Discuss its importance in Contract.

स्वतंत्र सहमति से क्या आशय है ? सहमति कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती? अनुबन्ध के लिए इसके महत्त्व को समझाइये।

UNIT-II

(इकाई-II)

13. Explain the Duties and Responsibilities of Bailor.

निकेणी के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को समझाइये।

UNIT-III

(इकाई-III)

14. State Inspector's powers and duties under Factories Act, 1948.

कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निरीक्षकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को समझाइये।

UNIT-IV

(इकाई-IV)

15. What are the provisions related to Electronic Records ?
State.

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रेषण से संबन्धित प्रावधान क्या हैं ?
बताइये।

UNIT-V

(इकाई-V)

16. Describe the types, rights of Patents. Also explain the
Revocation of Patents.

पेटेंट के प्रकार एवं अधिकारों का वर्णन करो। पेटेंटों की
प्रतिसंहरण को समझाइये।
